

# लोहगढ़ में जल्द बनेगा विश्वस्तरीय बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री की संयुक्त अध्यक्षता में लोहगढ़ परियोजना विकास समिति की बैठक हुई आयोजित

प्रथम चरण में 74 करोड़ रुपये होंगे खर्च, जिसमें किले के जीर्णाद्वार, किलेनुमा दीवार, प्रवेश द्वार, नानकशाही सिक्का और स्मारक का होगा निर्माण

कुरुक्षेत्र के पिपली में तीन एकड़ भूमि पर सिख संस्कृति को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए भव्य सिख संग्रहालय का भी होगा निर्माण

**समाचार गेट/ब्यूरो**  
चंडीगढ़। केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लोहगढ़ परियोजना विकास समिति की बैठक की संयुक्त की ओर भव्य संग्रहालय का भी होगा निर्माण।

देखेंखे के लिए किया गया है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की प्रगति की निगरानी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लोहगढ़ परियोजना विकास समिति की बैठक की संयुक्त की ओर भव्य संग्रहालय का भी होगा निर्माण।

कुरुक्षेत्र के पिपली में तीन एकड़ भूमि पर सिख संस्कृति को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए भव्य संग्रहालय का भी होगा निर्माण।

देखेंखे के लिए किया गया है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की प्रगति की निगरानी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लोहगढ़ परियोजना विकास समिति की बैठक की संयुक्त की ओर भव्य संग्रहालय का भी होगा निर्माण।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का निर्माण मुख्य रूप से उनकी जीवनी पर केंद्रित होना चाहिए। स्मारक के डिजाइन का उद्देश्य जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए एक संग्रहालय बनाना। विशेष रूप से युवा पीढ़ी को वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए एक संग्रहालय बनाना।



## हत्या, लूट, डैकेती, बलात्कार, रंगदारी, छेड़छाड़ को लेकर हरियाणा पर उठने लगी है उंगलियां : कुमारी सैलजा

**समाचार गेट/ब्यूरो**  
चंडीगढ़। अधिकल भारतीय कंग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिराजा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि जिस हरियाणा की पहचान अपने देसी खानपान, दूध-दही और पहलवानों के कारण होती है आज इस प्रदेश पर बढ़ते अपराधों को लेकर उंगलियां उठने लगी हैं। हत्या, लूट, डैकेती, बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़, वाहन चोरी की वारदातें आज भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। सरकार चाहे अपराध में कमी के लाख दावे का पर सच्चाई किसी से छिपी नहीं हैं। कानून नाम की प्रदेश में कोई चीज़ नहीं बची है।

पहली बार हरियाणा पर बढ़ते अपराधों को लेकर उंगलियां उठने लगी हैं। किसी भी वारदात को अंजाम देने वाले नायब सैलजा ने कहा कि वर्ष 2024 में 950 हत्याएं हुई, वाहन चोरी की 15577 घटनाएं हुई जबकि रंगदारी की कुल 416 वारदातें हुईं। कुमारी सैलजा ने कहा कि वर्ष 2024 में पूलिस हैसा कोई बदलाव नहीं हो, और बेटी पढ़ाओं को केवल नायब सैलजा ने देने पर फायरिंग कर दिलाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया है। सरकार की अंजाम देने के लिए रंगदारी देने को मजबूर है। अपराध के मामले में बढ़ती है और बदलाव नहीं होती है और वारदातों में दुष्कर्म की वारदात को देखा जाए तो उनकी प्रभाव दिख रहा है। सरकार का दावा है कि सब कुछ नियंत्रण में है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार बेटी बच्चों और बेटी पढ़ाओं को केवल नायब सैलजा ने देने की सुझाव के लिए कुछ नहीं किया है। सरकार की अंजाम देने के लिए रंगदारी देने को मजबूर है। अपराध के मामले में बढ़ती है और बदलाव नहीं होती है और वारदातों में दुष्कर्म की वारदात को देखा जाए तो उन वारदातों में हरियाणा के बदलावों का हाथ मिला है। बदला अपराध और बढ़ते अपराधी हरियाणा के



**कहा-पहली बार हरियाणा में पड़ोसी राज्य पंजाब की तर्ज पर बढ़ रहा है गैंगस्टर कल्चर**

आमजन के निशाने पर है। बीते कुछ सालों में महिलाओं, बच्चों और बुजुगों के खिलाफ अपराध तेज़ी से बढ़ा है। कुछ सालों में हरियाणा ने दूसरे राज्यों की भी पीढ़े लौटा दिया है। पहले अपराध की घटनाएं केवल राजधानी दिल्ली से सटे शहरों में होती थीं लेकिन अब पूरे प्रदेश में इनका प्रभाव दिख रहा है। सरकार का दावा है कि सब कुछ नियंत्रण में है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि वर्ष 2024 में 950 हत्याएं हुई, वाहन चोरी की 15577 घटनाएं हुई जबकि रंगदारी की कुल 416 वारदातें हुईं। कुमारी सैलजा ने कहा कि वर्ष 2024 में पूलिस हैसा कोई बदलाव नहीं हो, और बेटी पढ़ाओं को केवल नायब सैलजा ने देने पर फायरिंग कर दिलाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए रंगदारी देने को मजबूर हैं। अपराध के मामले में बढ़ती है और बदलाव नहीं होती है और वारदातों में दुष्कर्म की वारदात को देखा जाए तो उन वारदातों में हरियाणा के बदलावों का हाथ मिला है। बदला अपराध और बढ़ते अपराधी हरियाणा के

शिक्षित करना होना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्मारक में बाबा बंदा सिंह बहादुर सहित देश भर में मुगलों के खिलाफ अच्युत सिख गुरुओं द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को समर्पित किया जा सके।

बैठक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पर बढ़ते अधिकारियों को

किलेनुमा दीवार का निर्माण, प्रवेश द्वार, नानकशाही सिक्का का निर्माण, साइट का भूमियोग्य और स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्मारक में अतीत में आर्ट को भी बढ़ावा देने की ओर भी ध्यान दिलाया जाएगा।

बैठक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पर बढ़ते अधिकारियों को

किलेनुमा दीवार का निर्माण, प्रवेश

द्वार, नानकशाही सिक्का का निर्माण,

साइट का भूमियोग्य

और स्मारक का निर्माण किया जाएगा।

बैठक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पर बढ़ते अधिकारियों को

किलेनुमा दीवार का निर्माण, प्रवेश

द्वार, नानकशाही सिक्का का निर्माण,

साइट का भूमियोग्य

और स्मारक का निर्माण किया जाएगा।

बैठक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पर बढ़ते अधिकारियों को

किलेनुमा दीवार का निर्माण, प्रवेश

द्वार, नानकशाही सिक्का का निर्माण,

साइट का भूमियोग्य

और स्मारक का निर्माण किया जाएगा।

बैठक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पर बढ़ते अधिकारियों को

किलेनुमा दीवार का निर्माण, प्रवेश

द्वार, नानकशाही सिक्का का निर्माण,

साइट का भूमियोग्य

और स्मारक का निर्माण किया जाएगा।

बैठक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पर बढ़ते अधिकारियों को

किलेनुमा दीवार का निर्माण, प्रवेश

द्वार, नानकशाही सिक्का का निर्माण,

साइट का भूमियोग्य

और स्मारक का निर्माण किया जाएगा।

बैठक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पर बढ़ते अधिकारियों को

किलेनुमा दीवार का निर्माण, प्रवेश

द्वार, नानकशाही सिक्का का निर्माण,

साइट का भूमियोग्य

और स्मारक का निर्माण किया जाएगा।

बैठक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पर बढ़ते अधिकारियों को

किलेनुमा दीवार का निर्माण, प्रवेश

द

## संपूर्ण आहार है दलिया, डायबिटीज को करता है नियंत्रित

गे

हूं को रिफाइंड करके तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में दलिया भी समिल है, जो खाने में ज्यादा होने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। विपिन पोषक तत्वों से भरपूर दलिया अपने आप में संपूर्ण आहार है। आहार-विशेषज्ञ ओट्स को सुपरफूड की श्रेणी में रखते हैं और इसके नियमित सेवन की सलाह देते हैं।

### डायबिटीज को करे नियंत्रित

दलिया में मौजूद फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और मैनीशियम से डायबिटीज टाइप-2 के मरीजों में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। ये तत्व ऐसे एंजाइम बनाते हैं, जिनकी वजह से भोजन थीरे-धीरे पचता है। इससे लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। यह रक्त में ग्लूकोज को कम मात्रा में रिलायन करता है और इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित रखता है।

### ऊर्जा का स्तर सुधारे

फैट फ्री या लो कैलरी वाला दलिया ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। दलिया में मौजूद प्रोटीन और विटामिन पूरे दिन आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए आहार विशेषज्ञ नाश्ते में एक कटोरी दलिया के सेवन को सेहत के लिहाज से फायदेमंद मानते हैं।

### प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए

दलिया में मौजूद फाइबर आसानी से अवशोषित हो जाता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत बनाता है। इससे प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। दलिया से मिलने वाले मैनीशियम, सेलिनियम और जिंक शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। सुपाच्य गुणों के कारण दलिया से बना आहार मरीजों को देने की सलाह दी जाती है।

### वजन को रखे नियंत्रित

वसा-रहित एवं कम कैलरी वाला होने के कारण दलिया बजन को नियंत्रित रखता है। गेहूं से बना दलिया फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। नियमित रूप से दलिया का सेवन करने से पेट देर तक भरे होने का एहसास करता है।



### दांतों को दे मजबूती

दलिया में कैल्शियम, मैनीशियम, फास्फोरस आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी हैंडिंगों और दांतों के स्वस्थ बनाता है। इसके नियमित सेवन से भरपूर पोषण मिलता है। बढ़ती ऊर्जा में हैंडिंगों की कमज़ोरी और जोड़ों में दर्द होने की आवांक बढ़ जाती है, जिसे नियंत्रित रखने के लिए दलिये का सेवन कर सकते हैं।

### एनीमिया से बचाए



इसमें मौजूद प्रोटीन, आयरन, मैनीशियम शरीर में हीमोलाइन के स्तर को सेवन करने के लिए दलिया में दूध, ड्राइ फ्रूट्स और पसंदीदा फल मिलाकर खाने से इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है।

## त्वचा को बनाए खूबसूरत

दलिया में मौजूद विटामिन बी मेटाबोलिज्म को ठीक रखने में मदद करता है। इसे दूध में मिलाकर त्वचा पर स्क्रब करने से रुची बेजान त्वचा में चमक आ जाती है। इसका फेसपैक लगाने से त्वचा मुलायम और खूबसूरत होती है।

## सेवन में बरतें सावधानी

इसे 5 से 70 साल तक, हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण यह आसानी से पच जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में एक कटोरी दलिया खा सकता है। बेहत ज्यादा कि नमकीन दलिया बनाते समय एक मुटुटी मूँग धूली हुई दाल और एक कटोरी पसंदीदा मिक्स सब्जियां डालकर पकाएं। इसमें प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नमकीन दलिया के साथ दही का सेवन ज्यादा फायदेमंद है। मीठे दलिया में दूध, ड्राइ फ्रूट्स और पसंदीदा फल मिलाकर खाने से इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है।

## बॉडी बिल्डिंग में सहायक



दृष्टि मिलाकर बनाया गया

मैंदा दलिया प्रोटीन से भरपूर होता है, जो बॉडी बिल्डिंग के शौकीनों के लिए फायदेमंद होता है। प्रोटीन शरीर के विकास और मसल्स के निर्माण के अलावा शरीर को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है।

## टाईम पास

### रेसिपी



### ऑलिव सैलेड

#### सामग्री

- काले एवं हरे ऑलिव्स : 200 ग्राम
- 2 नीबू के छिलके
- 2 पतली रसाइजेज में कटे नीबू डालें। 3 बड़े तेज पत्ते तोड़कर डालें। इसमें अब ऑलिव्स डालकर चलाएं। ऑलिव ऑयल और ऑरेगेनो डालें। इसे तीन मिनट तक धीमी आंच पर पकाने दें। ऊपर से नमक डालकर दोबारा मिलाएं। ऑलिव सैलेड को बोल में निकालें। ध्यान रखें, इसे हलका गर्म ही सर्व करें।

### विधि

ऑलिव को अच्छी तरह धोकर साफ करें। किसी कपड़े पर फैला दें और पानी सूखने दें। ऑसेपन में सौंफ डालकर तीन मिनट तक धूने। अब इसमें नीबू के छिलके एवं रसाइजेज में कटा नीबू डालें। 3 बड़े तेज पत्ते तोड़कर डालें। इसमें अब ऑलिव्स डालकर चलाएं। ऑलिव ऑयल और ऑरेगेनो डालें। इसे तीन मिनट तक धीमी आंच पर पकाने दें। ऊपर से नमक डालकर दोबारा मिलाएं। ऑलिव सैलेड को बोल में निकालें। ध्यान रखें, इसे हलका गर्म ही सर्व करें।

## पनीर टिक्का

#### सामग्री

- पनीर : 750 ग्राम ■ पालक का पेरस्ट : 1 कप ■ हंग कर्ड : 1 कप ■ जीरा पाउडर : 1 टीस्पून ■ कालू का पेरस्ट : 1 टीस्पून ■ भुजा बैसन : 3 टेबलस्पून ■ हरी मिर्च का पेरस्ट : 1 टीस्पून ■ अदरक-लहुन का पेरस्ट : 3 टीस्पून ■ ऑयल : 2 टेबलस्पून ■ 1 नीबू का रस ■ गरम मसाला : 1 टीस्पून ■ नमक : खाद्य के अनुसार



### विधि

मैरिनेशन के लिए एक बोल में हंग कर्ड, गरम मसाला, अदरक-लहुन का पेरस्ट और काजू का पेरस्ट डालकर चलाएं। अब इसमें पालक का पेरस्ट डालें। पनीर को मोटे रसाइजेज में कटें और इस मिक्सर में डालें। इसे तीन मिनट तक धीमी आंच पर पकाने दें। अब इसे गिर पेन में दोनों ओर से सुनहरा होने तक सेंके ले। प्लेट में पनीर टिक्का को निकालें और ऊपर से नीबू का रस डालकर सर्व करें।

## आज का राशिफल

### ज्येष्ठ

चू चे चो ला ली  
ज्यु ले लो आ

कहीं रुक हुआ पैसा वसूलने में नमद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रबंध में समय नहीं बंगालकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। विपरीतों के सक्रिय होने की संभवता है। जीवन जायदाद का लाभ भी हो सकता है। अपने रात्रिहानि की आशका रखें। शुभांक-5-6-7

### वृष्टि

इ उ ए ओ वा  
ची धू चे वो

कल का परिश्रम आज लाभ देगा। घर के सदस्य मदद करें और साथ ही अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। कर्ज के बदले भी सुधार दें। व्यायाम से अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। व्यायाम रस्ते में अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। शुभांक-5-7-8

संतोष रखने से सक्रियता मिलती है। नीबू के बदले में व्यायाम दें। घर का लाभ दें। घर के सदस्य मदद करें और साथ ही अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। व्यायाम के बदले में अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। अपने रात्रिहानि की आशका रखें। शुभांक-5-6-8

**कार्क**

की धू हे हो आ  
डी झू ढे डो

कल का परिश्रम आज लाभ देगा। घर के सदस्य मदद करें और साथ ही अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। व्यायाम से अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। अपने रात्रिहानि की आशका रखें। शुभांक-3-5-7

**कन्या**

दो पा पी पू ष  
ण र पे थो

महर्ष्यां पर्यावरण को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। कामकाज में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्राप्ति होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नवीन चिन्हांपरी बढ़ेगा के साथ सोंजे में किए जा सकते हैं। शुभांक-3-5-8

**तुला**

दा ई रे दो  
ता ती ते तो

जगजीवी कार्यों से लाभ देगा। यारू तो जाएगा। व्यायाम से अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। व्यायाम से अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। अपने रात्रिहानि की आशका रखें। शुभांक-3-5-9

**वृश्चिक**

तो ना ली जी जे  
तो य वी यू

जगजीवी कार्यों से लाभ देगा। यारू तो जाएगा। व्यायाम से अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने लगें। व्यायाम से अधिक बदलावी से भी मुक्ति मिलने



# संपादकीय/समाचार

## संपादकीय

### समय क्रान्तिकारी बदलाव का है

भारत में शिक्षा क्षेत्र में क्रान्तिकारी बदलाव की जरूरत है। यदि हमें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है तो कई पहलुओं एवं मोर्चों पर काम करना आवश्यक है। हमारी आजादी के बाद से ही शिक्षा क्षेत्र में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने हमें दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बनने से रोक दिया है। भारत में



**नरेंदर यादव  
कार्यकारी संपादक**

एक सभ्य शिक्षा प्रणाली के महत्व की जरूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नयी शिक्षा प्रणाली का अन्तर्गत अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। देश की शिक्षा प्रणाली को नया आकार दिया जा रहा है और शिक्षा से जुड़े कई बदलाव किए जा रहे हैं। प्रणाली को आधुनिक बनाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं। बहुहाल, यह खुशी की बात है कि अब भारत के 91.7 प्रतिशत स्कूलों तक बिजली पहुंच चुकी है। अधिकारियां चलाकर देश के बाकी बच्चे स्कूलों तक विद्युत अपूर्ति सुनिश्चित होना चाहिए। देश में 98 प्रतिशत से ज्यादा स्कूलों तक पेयजल सुविधा के साथ ही योग्यतें की सुविधा पहुंच चुकी है। स्कूलों को संसाधन बनाने के साथ ही शिक्षकों औं पुस्तकों की युगता एवं स्कूलों को संसाधन के स्तर पर बहुत मजबूत करना चाहिए। भारत के 60 प्रतिशत स्कूलों में भी कंप्यूटर उपलब्ध नहीं और इंटरनेट की सुविधा बाले स्कूलों की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम है। आज के समय में जब हमें बड़े पैमाने पर कुशल कामगारों की जरूरत पड़ती है, तब किसी का कंप्यूटर शिक्षा से वर्चित होना बहुत महंगा पड़ेगा। आज के समय में हर छात्र या हर नागरिक को कंप्यूटर और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। कंप्यूटर आज के समय में विलासिता नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य जरूरत है।

नया भारत बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के जरूरी ही देश का विकास होते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव की आता है। हालांकि, कई स्कूल अधिकारियों और छात्रों बोनाएं रखने और अकर्त्तव्य करने के लिए संघर्ष करते हैं। इन संघर्ष की स्थितियां का नियंत्रित होना जरूरी है। इसी से भारत दुनिया की तीसरी अर्थक व्यवस्था एवं विश्व गुरु होने का दर्जा पा सकेगा। क्योंकि शिक्षा दृष्टिओं और दृष्टिकोणों को बढ़ाती है, जिससे समाज में स्वस्थ प्रतिवर्यांश की भावना पैदा होती है। इससे उन्नत एवं चरित्रभवन नागरिकों का नियंत्रित होता है एवं देश विकास की ओर अग्रसर होता है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रगति करने की इच्छा भी बढ़ती है, अन्याय, भ्रष्टाचार, राजनीति और सांप्रदायिकता आदि से लड़ती की क्षमता बढ़ती है। शिक्षा एक ऐसे लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है जिसमें एक सध्य और सुरक्षित समाज शामिल हो। यह अर्थात् रूप से वर्चित समूहों के उत्थान में भी मदद करता है और कई नौकरी और रोजगार के अवसरों का निर्माण सुनिश्चित करता है। एक सभ्य शिक्षा प्रणाली विचारों, ज्ञान और अच्छी प्रथाओं का शांतिपूर्ण आदान-प्रदान सुनिश्चित करती है। यह अपराध और आतंकवाद को कम करने में मदद करता है; इस प्रकार, कानून और व्यवस्था की मुद्दों को नियंत्रित में रखा जाता है। एक युगनवारी शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों की विकासित करने के सध्य-सध्य भाईचारे की भावना को बढ़ाने में मदद करती है।

भारतीय परिदृश्य में युगनवारीपूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी बाधा है। उचित बुनियादी ढांचे की कमी और शिक्षा के प्रति समाज के कई बार्गों में कम उत्साह के कारण भारत में शिक्षा के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। शिक्षा प्रणाली में कुछ चुनौतीय हैं जिनके कारण भारत इस्टम विकास को पूरा करने में समाज नहीं है। भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बहराह बनाने एवं छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए उन नीतियों पर सख्ती से काम करने की आवश्यकता है जो भारत में युगनवारीपूर्ण शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करें।

### बूदबांदी से ठंड बढ़ी, सामान्य जन-जीवन हुआ प्रभावित, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

समाचार गेट/सुनील दीक्षित

कर्नीना। कर्नीना क्षेत्र में समाचार सुबह हुई 2 एमएस बूदबांदी से ठंड को बढ़ावा मिला है वहाँ रवि फसल को फायदा हुआ है। आसमान में दिनभर बालवाही होने से सूर्य के दर्शन नहीं हो सके। धूध व कहाँ छाने से कड़ाके की ठंड में सामान्य जन-जीवन अवश्यकता हो गया। पिछले दिन सूखे बारिश के उपरांत या रवि फसलों में सिंचाई से छुकरागा मिला हुआ है। धूध के कारण धूध क्षमता कम होने पर बीकानेर-रेवाड़ी-दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस तथा पैसेंजर रेलगाड़ियों निर्धारित समय से लेवल बदल रही है। सड़क यातायात पर भी सर्दी का प्रभाव पड़ा है। छोटे-बड़े बाहन बत्ती जलाकर रेंगर कुरु रहे हैं। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी होने से क्षेत्र के दिन वर रात के तपामान में कमी है ठंड को देखें हुए जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एसडीएम सिंचाई अल्हालकारी तथा धूध एवं बोरायर की देखते हुए अप्राप्त उनकान बरतने को कहा है। सुरक्षित यातायात के लिए उहोंने वाहन चालकों से कहा कि बाहन को तेज गति से न चलानं तथा अवरोधकर करने में जल्दबाजी न करें। रात्री के समय डीपर का प्रयोग करें और बाहन को फॉग लाइट लगावाएं। बाहन चालते समय चालक मोबाइल फोन का प्रयोग न करें तथा नशा से दूर रहें। यातायात नियमों का पालन करें और सरक्षित यात्रा कर अपने गतवाय पर चंचले। घर में बुरुं व्यक्तियों तथा नवजात बच्चों को सर्दी से बचाकर रखें। जल्दी होने पर ही घर से बाहर निकलें।

### 24 दिन बाद भी नहीं हुआ बागोत के युवक का अंतिम संरक्षण

समाचार गेट/सुनील दीक्षित

कर्नीना। खंड के युवकों में निवारा 26 वर्षीय युवक द्वारा 13 दिसंबर 2024 को फांसी लगाकर अवृत्त होत्या करने के 24 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। शब का 14 दिसंबर को पुलिस ने पोस्टमार्ट बरवाना दिया था। उसके बाद प्रयोगिले 24 दिन से शब एसडीएच करनीना के क्रीजर में रहा हुआ है। जिसमें संक्रमण की संभावना से काम करने के लिए उनके बाहर नहीं किया जा रहा है।

कर्नीना के वारिश होते हुए युवतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है अन्यथा लावारिश अवृत्त्या में मिलने वाले शब का 72 घंटे बाद प्रशासन सम्पर्क करने के परिवार तथा प्रशासनिक अधिकारी असमंजस में हैं।

मृतक के पिता कैलाशचंद 8 व्यक्तियों के विरुद्ध कर सकते हैं। यह अपने गत अंदर हुए हैं। जबकि पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में साक्षर उपलब्ध करवाने को कहा रहा है। इंधर कैलाशचंद को प्रशासनिक अधिकारियों के नाम को लिखा रखा है।

समाचार गेट/सुनील दीक्षित

कर्नीना। खंड के युवकों में निवारा 26 वर्षीय युवक द्वारा 13 दिसंबर 2024 को फांसी लगाकर अवृत्त होत्या करने के 24 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। शब का 14 दिसंबर को पुलिस ने पोस्टमार्ट बरवाना दिया था। उसके बाद प्रयोगिले 24 दिन से शब एसडीएच करनीना के क्रीजर में रहा हुआ है। जिसमें संक्रमण की संभावना से काम करने के लिए उनके बाहर नहीं किया जा रहा है।

कर्नीना के वारिश होते हुए युवतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है अन्यथा लावारिश अवृत्त्या में मिलने वाले शब का 72 घंटे बाद प्रशासन सम्पर्क करने के परिवार तथा प्रशासनिक अधिकारी असमंजस में हैं।

मृतक के पिता कैलाशचंद 8 व्यक्तियों के विरुद्ध कर सकते हैं। यह अपने गत अंदर हुए हैं। जबकि पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में साक्षर उपलब्ध करवाने को कहा रहा है। इंधर कैलाशचंद को प्रशासनिक अधिकारियों के नाम को लिखा रखा है।

समाचार गेट/सुनील दीक्षित

कर्नीना। खंड के युवकों में निवारा 26 वर्षीय युवक द्वारा 13 दिसंबर 2024 को फांसी लगाकर अवृत्त होत्या करने के 24 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। शब का 14 दिसंबर को पुलिस ने पोस्टमार्ट बरवाना दिया था। उसके बाद प्रयोगिले 24 दिन से शब एसडीएच करनीना के क्रीजर में रहा हुआ है। जिसमें संक्रमण की संभावना से काम करने के लिए उनके बाहर नहीं किया जा रहा है।

### विधायक मूलचंद शर्मा के तुरंत एक्शन लेने पर उनकी कार्य शैली की प्रशंसा

समाचार गेट/सुनील दीक्षित

विधायक मूलचंद शर्मा के तुरंत एक्शन लेने के लिए उनकी कार्य शैली की प्रशंसा की जाएगी।

विधायक मूलचंद शर्मा के तुरंत एक्शन लेने के लिए उनकी कार्य शैली की प्रशंसा की जाएगी।

विधायक मूलचंद शर्मा के तुरंत एक्शन लेने के लिए उनकी कार्य शैली की प्रशंसा की जाएगी।

विधायक मूलचंद शर्मा के तुरंत एक्शन लेने के लिए उनकी कार्य शैली की प्रशंसा की जाएगी।

विधायक मूलचंद शर्मा के तुरंत एक्शन लेने के लिए उनकी कार्य शैली की प्रशंसा की जाएगी।

विधायक मूलचंद शर्मा के तुरंत एक्शन लेने के लिए उनकी कार्य श







